



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2958]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 18, 2017/आश्विन 26, 1939

No. 2958]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017/ASVINA 26 1939

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2017

का.आ. 3376(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2017 के नियम 3 और नियम 4 के उपनियम (i) के साथ पठित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सूचित करती है कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के तहत राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 674 (अ) दिनांक 28.02.2017, का.आ. 1169 (अ) दिनांक 13.04.2017, का.आ. 2985 (अ) दिनांक 11.09.2017 और का.आ. 2986 (अ) दिनांक 11.09.2017 द्वारा नियुक्त किए गए भारतीय मानक ब्यूरो के सदस्य भारतीय मानक ब्यूरो की शासी परिषद् के सदस्यों के रूप में अपने कार्यकाल की अवधि पूर्ण होने तक निम्नानुसार अपने पद पर आसीन रहेंगे:-

संसद सदस्य

1. श्री भोला सिंह, सदस्य, लोकसभा - 12.04.2019 तक सदस्य
2. श्री महेश पोद्दार, सदस्य, राज्यसभा - 12.04.2019 तक सदस्य

राज्य सरकार एवं संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि

3. हरियाणा राज्य के गुणता और मानक विभाग पर प्रशासनिक नियन्त्रण रखने वाले प्रभारी मंत्री - 28.02.2019 तक सदस्य
4. कर्नाटक राज्य के गुणता और मानक विभाग पर प्रशासनिक नियन्त्रण रखने वाले प्रभारी मंत्री - 28.02.2019 तक सदस्य
5. महाराष्ट्र राज्य के गुणता और मानक विभाग पर प्रशासनिक - 28.02.2019 तक सदस्य

- नियन्त्रण रखने वाले प्रभारी मंत्री
6. ओडिशा राज्य के गुणता और मानक विभाग पर प्रशासनिक - 28.02.2019 तक सदस्य नियन्त्रण रखने वाले प्रभारी मंत्री
7. सिक्किम राज्य के गुणता और मानक विभाग पर प्रशासनिक - 28.02.2019 तक सदस्य नियन्त्रण रखने वाले प्रभारी मंत्री

केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों के प्रतिनिधि

8. विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले - 28.02.2019 तक सदस्य विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
9. विशेष सचिव/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, उपभोक्ता - 28.02.2019 तक सदस्य मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
10. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई - 28.02.2019 तक सदस्य दिल्ली

अखिल भारतीय स्तर की औद्योगिक संस्थाओं अथवा संघों के प्रतिनिधि

11. अध्यक्ष, कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सी.आई.आई.), 23- - 28.02.2019 तक सदस्य 26, इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110003
12. अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री - 28.02.2019 तक सदस्य (फिक्की), फेडरेशन हाऊस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली-110001
13. अध्यक्ष, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ - 28.02.2019 तक सदस्य इंडिया (एसोचैम) इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग, 17 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि और उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति

14. ट्रस्टी, ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र, 1-11-414, समर्थ सदन, - 28.02.2019 तक सदस्य ज्ञानेश्वर नगर, पूर्णा रोड, नांदेड -431605 महाराष्ट्र
15. श्री परवेज़ अहमद खान, भविष्य एजुकेशनल एंड चैरिटेबल - 28.02.2019 तक सदस्य सोसायटी, मकान नं. 8/2, बी.एल. नं. 16, कनकीनारा, उत्तरी 24 परगना, कोलकाता-743126 पश्चिम बंगाल

केन्द्रीय अथवा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के मुख्य कार्यकारी

16. प्रबन्ध निदेशक, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लि0 - 10.09.2019 तक सदस्य (एस.ई.सी.आई.), प्रथम तल, डी-3, ए विंग, रेलीगेयर भवन, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017

गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक

17. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया - 10.09.2019 तक सदस्य लि0, सौदामिनी, प्लॉट नं0 2, सेक्टर-29, इफको चौक के निकट, गुरुग्राम, हरियाणा-122001

वैज्ञानिक और अनुसन्धान संस्थानों, तकनीकी, शैक्षणिक और पेशेवर संगठनों के प्रतिनिधि

18. प्रो0 सौनक कुमार चौधरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, - 10.09.2019 तक सदस्य इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नालॉजी (आई.आई.टी.) कानपुर, उत्तर प्रदेश-208016

19. निदेशक, केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट - 10.09.2019 तक सदस्य
(सी.ई.ई.आर.आई) पिलानी, राजस्थान-333031

किसानों के हितों अथवा किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति

20. श्री प्रभाकर कोमारावोलु, पुत्र श्री के. शेषागिरी राव, - 10.09.2019 तक सदस्य
प्लॉट संख्या 33-69, फ्लैट संख्या 305, पल्लवी विला, ऑफिसर्स
कॉलोनी, बैंक ऑफ इंडिया के निकट, आर.के. पुरम, रामाकृष्ण
पुरम, हैदराबाद, तेलंगाना - 500056

2. केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2017 के नियम 3 और नियम 4 के उपनियम (i) के साथ पठित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की शासी परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है:-

वैज्ञानिक और अनुसन्धान संस्थानों, तकनीकी, शैक्षणिक और पेशेवर संगठनों के प्रतिनिधि

21. डॉ. शिरीष बी. पाटिल, कुलपति, डी.वाई. पाटिल विश्वविद्यालय, -सदस्य
नेरूल, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र-400706
3. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री; सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग; और महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो की शासी परिषद् में पदेन आधार पर अपना पद धारण करेंगे। भारतीय मानक ब्यूरो की शासी परिषद् के शेष सदस्यों को यथासमय नियुक्त कर दिया जाएगा।

[फा. सं. 2/1/2013-बी.आई.एस]

पी. वी. रामाशास्त्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2017

S.O. 3376(E).— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) read with rule 3 and sub-rule (1) of rule 4 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2017, the Central Government hereby informs that the members of the Bureau of Indian Standards appointed under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) vide Gazette Notifications No. S.O. 674(E) dated 28.02.2017, No. S.O. 1169(E) dated 13.04.2017, No. S.O. 2985(E) dated 11.09.2017 and No. S.O. 2986(E) dated 11.09.2017 shall continue to hold such office as members of the Governing Council of the Bureau of Indian Standards till the completion of their terms as follows:-

Members of Parliament

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Shri Bhola Singh, Member, Lok Sabha. | - Member till 12.04.2019 |
| 2. Shri Mahesh Poddar, Member, Rajya Sabha. | - Member till 12.04.2019 |

Representatives from the State Government and the Union Territories

- | | |
|---|--------------------------|
| 3. Minister-in-charge of the Department having administrative control over quality and standards of State of Haryana. | - Member till 28.02.2019 |
| 4. Minister-in-charge of the Department having administrative control over quality and standards of State of Karnataka. | - Member till 28.02.2019 |
| 5. Minister-in-charge of the Department having administrative control over quality and standards of State of Maharashtra. | - Member till 28.02.2019 |
| 6. Minister-in-charge of the Department having administrative control over quality and standards of State of Odisha. | - Member till 28.02.2019 |
| 7. Minister-in-charge of the Department having administrative control over quality and standards of State of Sikkim. | - Member till 28.02.2019 |

Representatives of the Ministries and Departments of the Central Government

- | | |
|--|--------------------------|
| 8. Special Secretary/Additional Secretary/Joint Secretary, Department of Consumer Affairs, Krishi Bhawan, New Delhi. | - Member till 28.02.2019 |
| 9. Special Secretary/Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Krishi Bhawan, New Delhi. | - Member till 28.02.2019 |
| 10. Additional Secretary/Joint Secretary, Department of Commerce, Udyog Bhawan, New Delhi. | - Member till 28.02.2019 |

Representative of Industry Associations or Federations of All-India level

- | | |
|--|--------------------------|
| 11. President, Confederation of Indian Industry (CII), 23-26, Industrial Area, New Delhi-110003. | - Member till 28.02.2019 |
| 12. President, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), Federation House, Tansen Marg, New Delhi-110001. | - Member till 28.02.2019 |
| 13. President, Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM), Allahabad Bank Building, 17, Parliament Street, New Delhi-110001. | - Member till 28.02.2019 |

Representatives of Recognized Consumer Organizations and Persons representing consumer interests

- | | |
|--|--------------------------|
| 14. Trustee, Grahak Panchayat Maharashtra, 1-11-414, Samarth Sadan, Gyaneshwar Nagar, Purna Road, Nanded, Maharashtra-431605. | - Member till 28.02.2019 |
| 15. Shri Parvez Ahmed Khan, Bhavishya Educational and Charitable Society, House No. 8/2, B.L. No. 16, Kankinara, North 24 Parganas, Kolkata, West Bengal-743126. | - Member till 28.02.2019 |

Chief Executive of Central or State Public Sector Enterprise

- | | |
|--|--------------------------|
| 16. Managing Director, Solar Energy Corporation of India (SECI) Ltd., 1 st Floor, D-3, A Wing, Religare Building, District Centre, Saket, New Delhi-110017. | - Member till 10.09.2019 |
|--|--------------------------|

Chairman or Managing Director of Industrial Organization who is awardee of a National or an International Award for Quality

- | | |
|---|--------------------------|
| 17. Chairman and Managing Director, Power Grid Corporation of India Ltd., Saudamini, Plot No. 2, Sector 29, Near IFFCO Chowk, Gurugram, Haryana-122001. | - Member till 10.09.2019 |
|---|--------------------------|

Representatives of Scientific and Research Institutions, Technical, Educational and Professional Organizations

18. Prof. Sounak Kumar Choudhury, Department of Mechanical Engineering, Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur, Uttar Pradesh-208016. - Member till 10.09.2019

19. Director, Central Electronics Engineering Research Institute (CEERI), Pilani, Rajasthan-333031. - Member till 10.09.2019

Persons representing farmers' interests or farmers associations

20. Shri Prabhakar Komaravolu, S/o Shri K. Seshagiri Rao, Plot No. 33-69, F. No. 305, Pallavi Villa, Officers Colony, Adj. to Bank of India, R.K. Puram, Ramakrishna Puram, Hyderabad, Telangana – 500056 - Member till 10.09.2019

2. In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) read with rule 3 and sub-rule (1) of rule 4 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2017, the Central Government hereby appoints the following as member of the Governing Council of the Bureau of Indian Standards for a period of two years with effect from the date of publication of this notification:-

Representatives of Scientific and research Institutions, Technical, Educational and professional Organizations

21. Dr. Shirish B. Patil, Vice Chancellor, D.Y. Patil University, Nerul, Navi Mumbai, Maharashtra-400706. - Member

3. Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Secretary, Department of Consumer Affairs and Director General, Bureau of Indian Standards will hold their positions in the Governing Council of the Bureau of Indian Standards on ex-officio basis. The remaining members of the Governing Council of the Bureau of Indian Standards would be appointed in due course.

[F. No. 2/1/2013-BIS]

P.V. RAMA SASTRY, Jt. Secy.